



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 07.11.2020

1-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल अपाचे बरामद।

दिनांक 07.11.2020 को सेक्टर 20 पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. तरुण चावला पुत्र स्वर्गीय त्रिलोक सिंह चावला निवासी बी ब्लॉक निराला नगर थाना कीदवई कानपुर देहात को चाइना कट अट्टा मार्केट के पास नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल अपाचे बिना नंबर बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. तरुण चावला पुत्र स्वर्गीय त्रिलोक सिंह चावला निवासी बी ब्लॉक निराला नगर थाना कीदवई कानपुर देहात

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 1018/2020 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. मोटरसाइकिल अपाचे बिना नंबर जिसका नंबर जिप नेट पर चेक करने पर नंबर डीएल 7एस सीए 2720

2-थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.11.2020 को थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त पंकज यादव उर्फ बाउसर पुत्र माता बदल यादव निवासी ग्राम अन्दउमऊ थाना हैदरगढ जिला बारांबकी को वाजिदपुर पुस्ता चौराहे के पास सेक्टर 135 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना एक्सप्रेस वे पर पंजीकृत मु0अ0स0 145/2019 धारा 376डी/323 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पंकज यादव उर्फ बाउसर पुत्र माता बदल यादव निवासी ग्राम अन्दउमऊ थाना हैदरगढ जिला बारांबकी

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 145/2019 धारा 376डी/323 भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा गौतमबुद्धनगर

3-थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद।

दिनांक 07.11.2020 को थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त अनीश उर्फ लडडू पुत्र सलीम निवासी ग्राम तैरया थाना सकीट जिला एटा को लोटस वैली स्कूल सेक्टर-127 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना एक्सप्रेस वे पर मु0अ0सं0 318/2020 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक छुरी बरामद की गयी है, जिसके सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेस वे पर मु0अ0सं0 421/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनीश उर्फ लडडू पुत्र सलीम निवासी ग्राम तैरया थाना सकीट जिला एटा को लोटस वैली स्कूल सै0-127 नोएडा

अपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1.मु0अ0सं0 318/20 धारा 379 भादवि थाना एक्सप्रेस वे नोएडा

2.मु0अ0सं0 421/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना एक्सप्रेस वे नोएडा

बरामदगी -

एक छुरी

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जनपद के यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से यातायात माह के तहत पुलिस कमिश्नरेंट यातायात प्रभाग जनपद वासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए यातायात नियमों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस कड़ी में डीसीपी यातायात गणेश प्रसाद शाह ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि यातायात माह के अवसर पर विगत दिवस यातायात पुलिस गौतमबुद्धनगर द्वारा निम्न कार्यवाही की गई।

- 1- यातायात पुलिस द्वारा सेंट हुड कान्वेंट स्कूल दादरी ग्रेटर नोएडा तथा मिहिर भोज पीजी कॉलेज दादरी ग्रेटर नोएडा में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी के साथ-साथ शपथ भी दिलाई गई।
- 2- यातायात पुलिस द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान में 75 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
- 3-तिलपता कंटेनर डिपो में ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोगों से वार्ता के साथ-साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।
- 4-यातायात पुलिस व एआरटीओ द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर सेक्टर 18 एनएसईजेड पर प्रदूषण के संबंध में कार्यवाही की गई है। डीसीपी यातायात ने बताया कि यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आगे भी लगातार यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित करते हुए वाहन चालकों को जागरूक करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि जनपद का यातायात और अधिक सुगम बनाया जा सके।

